



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 भाद्र 1937 (श10)

(सं0 पटना 986) पटना, शुक्रवार, 28 अगस्त 2015

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय

गृह विभाग

आदेश

26 अगस्त 2015

सं0 कारा/स्था0 (कक्ष0) 02-14/2014-5080—बिहार राज्य की काराओं में प्रशिक्षित गृह रक्षकों एवं भूतपूर्व सैनिकों से कक्षपाल के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या-10/2013 के आलोक में आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पत्रांक 1670/आ0 दिनांक 21.05.2015 द्वारा कक्षपाल के पद के लिए भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में अध्याचित पद के विरुद्ध चिकित्सीय परीक्षण एवं नियुक्ति हेतु कुल 544 अभ्यर्थियों की आरक्षण कोटिवार अनुशंसा प्राप्त हुई। तद्आलोक में निरीक्षणालय के पत्रांक 3221 दिनांक 29.05.2015 द्वारा सभी अभ्यर्थियों की चिकित्सीय जाँच एवं प्रमाण पत्रों की जांच दिनांक 09.06.2015 से 11.06.2015 के बीच की गयी, जिसमें 22 अभ्यर्थियों के चिकित्सीय जाँच एवं कागजातों की जाँच के क्रम में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि उक्त अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आते हैं या नहीं ? फलस्वरूप विभागीय पत्रांक-4144 दिनांक 17.07.2015 द्वारा निदेशक, सैनिक कल्याण बोर्ड, बिहार, पटना से स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया। निदेशक, सैनिक कल्याण बोर्ड, बिहार, पटना ने अपने पत्रांक-780 दिनांक 20.08.2015 द्वारा तत्काल 08 (आठ) अभ्यर्थियों को भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में होने की सम्पुष्टि की है। तदनुसार बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु की गई अनुशंसा, चिकित्सीय परीक्षण एवं कागजातों की जाँच तथा निदेशक, सैनिक कल्याण बोर्ड, बिहार, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित 08 (आठ) अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन पुनरीक्षित

वेतनमान पे-बैंड 5200-20200 ग्रेड पे 1900/- में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ कक्षपाल के पद पर पूर्णतः औपबंधिक/अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

2. नियुक्ति के साथ-साथ निम्नांकित अभ्यर्थियों को निदेशित किया जाता है कि वे अपने नाम के समक्ष अंकित किए गए पदस्थापित कारा में अपना योगदान इस पत्र के निर्गत तिथि से 15 दिनों के अंदर देना सुनिश्चित करेंगे।

कक्षपाल (भूतपूर्व सैनिक से) :-

क्र० सं०	आयोग का क्रम	रोल न०	अभ्यर्थियों का नाम एवं पता	गृह जिला	पदस्थापित कारा का नाम
1	2	3	4	5	6
1	81	20110911	बशिष्ठ नारायण तिवारी पिता-रिकेश्वर तिवारी, ग्रा०- भेडीहरवा, पो०- बधी रतनपुर, थाना- बैरिया, पं० चम्पारण, बिहार, पिन- 845438	पं० चम्पारण	मंडल कारा, छपरा
2	154	20110345	रविन्द्र प्रसाद पिता- रामाश्रय प्रसाद, ग्रा०-मनहठा, पो०-सिकरौल लख, थाना- नावानगर, बक्सर, पिन- 802129	बक्सर	मंडल कारा, छपरा
3	238	20110050	विनोद कुमार गुप्ता पिता-रघुराई सा, मो०-मलकौली, पो०-मलकौली, थाना- बगहा, पं० चम्पारण, पिन- 845105	पं० चम्पारण	मंडल कारा, छपरा
4	351	20110685	धीरेन्द्र कुमार पिता- ज्वाला शर्मा, ग्रा०+पो०- सन्डा, थाना- टिकारी, गया, बिहार, पिन- 824235	गया	मंडल कारा, आरा
5	352	20110127	रवि कुमार पिता- संजीवन प्रसाद, ग्रा०- सकरपुरा, पो०- मसौढ़ी, थाना- धनरुआ, जिला, पटना, पिन- 804452	पटना	मंडल कारा, आरा
6	399	20110271	देवमुनि यादव पिता- केदार यादव, ग्रा०+पो० एम०पी० बाग आरा, थाना- आरा, भोजपुर, पिन-802301	भोजपुर	मंडल कारा, हाजीपुर
7	526	20110719	संजीव कुमार गुप्ता पिता- तुरत लाल साह, ग्रा०- रामपुर भसोन, पो०- सुन्दरपुर, थाना- सकरा, मुजफ्फरपुर, पिन- 843102	मुजफ्फरपुर	मंडल कारा, आरा
8	537	20110793	जय प्रकाश पासवान पिता- अलगु पासवान, ग्रा०- कुरकुरी, पो०- बंकट, थाना- गरहनी, भोजपुर, पिन- 802206	भोजपुर	मंडल कारा, हाजीपुर

3. यह नियुक्ति तत्काल औपबंधिक/अस्थायी रूप से छः माह के लिए इस शर्त के साथ की जाती है कि यदि विशेष शाखा या पुलिस अधीक्षक से अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्व कृत अपराध के सत्यापन के संबंध में अथवा अभ्यर्थी द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अन्य प्रमाण-पत्रों की सम्पुष्टि संबंधित संस्थान से कराए जाने के क्रम में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है अथवा कोई गड़बड़ी पायी जाएगी तो नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा एवं अभ्यर्थी के विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।

4. नियुक्त कक्षपाल का योगदान स्वीकृत करने के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-1919 दिनांक 18.01.1976 के अनुपालन में उन्हें दहेज नहीं लेने/देने संबंधी घोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
5. वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं संकल्प संख्या-2469 दिनांक 16.11.2005 के प्रावधानानुसार बिहार सरकार कर्मचारी अंशदान पेंशन योजना, 2005 के प्रावधान प्रभावी होंगे।
6. सभी संबंधित काराधीक्षकों को निदेशित किया जाता है कि उनके कारा में पदस्थापित किए जा रहे नव नियुक्त कक्षपालों का योगदान पुनः उनके सभी मूल प्रमाण-पत्रों की जाँच भलीभाँति करते हुए एवं स्वयं संतुष्ट होते हुए तीन माह के लिए औपबधिक रूप से स्वीकृत करेंगे। योगदान स्वीकृति के उपरांत नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अन्य प्रमाण-पत्रों की सम्पुष्टि संबंधित संस्थान से तथा उनके चरित्र एवं पूर्व कृत अपराध के लिए सत्यापन संबंधित पुलिस अधीक्षक तथा विशेष शाखा से छः माह के अंदर कराया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा सम्पुष्टि कराए जाने के फलाफल से मुख्यालय को भी अवगत कराएँगे।
7. उपरोक्त नवनियुक्त कक्षपालों के नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि अधोहस्ताक्षरी से अधिकतम तीन माह के अंदर अवश्य करा लेंगे। यदि तीन माह के अंदर यह सम्पुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नवनियुक्त कक्षपालों के वेतन की निकासी तब तक नहीं की जाएगी जब तक नियुक्ति की सम्पुष्टि नहीं हो जाती है।
8. किसी भी मामले में किसी प्रकार की शंका का निराकरण अथवा मार्गदर्शन हेतु मुख्यालय को तुरंत अवगत कराएँगे।

आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 986-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>